

प्रेस नोट दिनांक 20-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी एवं परेड का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये ।

आज दिनांक 20-01-2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई तथा भोजनालय, स्टोर आदि का निरीक्षण किया गया व पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्ड रजिस्ट्रों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध में सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन अखिलेश वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक भूतनाथ गुप्ता सहित लाइन्स के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी तथा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 20-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कपिलवस्तु महोत्सव सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में गोष्ठी कर सम्बन्धित को निर्देशित किया गया ।

आज दिनांक 20-01-2023 को पुलिस लाइन्स सभागार कक्ष सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द द्वारा कपिलवस्तु महोत्सव-स्थली की सम्पूर्ण प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध गोष्ठी कर संबन्धित को निर्देशित किया गया ।

महोदय द्वारा कपिलवस्तु महोत्सव-स्थली जिला कारगार के सामने बी0एस0ए0 ग्राउंड में दिनांक 28-01-2023 से आयोजित होने वाले महोत्सव की सुरक्षा-व्यवस्था, दुकानों के रख-रखाव, आग से बचाव हेतु उपकरणों की उपलब्धता, झूले आदि के सुरक्षित संचालन, गाड़ियों की पार्किंग एवं मेला क्षेत्र में होने वाली भीड़ की सुरक्षा के सम्बन्ध में गोष्ठी कर संबन्धित को निर्देशित किया गया । उक्त गोष्ठी के दौरान सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी महिला थाना, निरीक्षक प्रज्ञान, प्रभारी यातायात व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें ।

प्रेस नोट दिनांक:- 20.01.2023 थाना को.लोटन

थाना को.लोटन पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 16 शीशी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष थाना को0 लोटन घनश्याम सिंह के नेतृत्व में दिनांक 20.01.23 को थाना लोटन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 12/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को 16 शीशी देशी शराब बन्टी बल्ली के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- प्रमोद लोध पुत्र रामकिशुन लोध साकिन मैनहिया थाना को0 लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्याम कन्हैया दूबे थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0नि0 छडू प्रसाद थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे.का. वसीम मुहम्मद थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 अश्वनी कुमार गौड़ थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
5. का0 रिकेश कुमार यादव थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट:दिनांक 20.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 20.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के क्रम में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा,जोगिया कस्बा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खडे वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 29 वाहनों से 32500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।